

भूमि किमा घण्टा
 ३० एकड़ी → ५२४ एकड़ी नेत्र देखने
 100 एकड़ी → ६ एकड़ी लिंग विभाग
 एकड़ी एकड़ी → अधिकारी नियुक्ति
 विभाग → लागू विभाग विभाग
 विभाग → उपर्युक्त विभाग विभाग
 विभाग → विभाग विभाग
 विभाग → विभाग विभाग

कार्यपालक अभियंत्र
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रमणित, पकड़ीवयाल

Schedule XLV Form No.-134

PWD Bhandarpur DIVISION
 PWD Tepa SUB-DIVISION

MEASUREMENT

BOOK

648

Name of officer _____

REFERENCE JOURNAL CODE CHBT AH

Date of first entry 1948

SCHEDULE NO. 134 FORM NO. 134

Date of last entry 1948

4th Year Maintenance

12

Sch. XLV-Form No.134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work - Maintenance of road from Narayangpur Kushwalg Tolg to Narayangpur HINERY road under CITS NY					
Agency - Dinesh Gupta					
Agreement No -					
Actual date of completion 06/03/2019					
4th year maintenance } 07/03/2022					
Period } 06/03/2022 to 06/03/2023					
① Restoration of Ramps					
$1 \times 8.40 \times 1.20 \times 0.30 = 2.88 \text{ m}^3$					
$1 \times 7.50 \times 1.10 \times 0.25 = 2.06 \text{ m}^3$					
$2 \times 10.40 \times 1.25 \times 0.25 = 6.25 \text{ m}^3$					
$1 \times 9.40 \times 1.15 \times 0.30 = 5.10 \text{ m}^3$					
$2 \times 8.40 \times 1.15 \times 0.30 = 5.52 \text{ m}^3$					
$1 \times 7.20 \times 1.20 \times 0.25 = 2.16 \text{ m}^3$					
$2 \times 8.40 \times 1.20 \times 0.30 = 5.76 \text{ m}^3$					
$2 \times 10.40 \times 1.25 \times 0.30 = 7.50 \text{ m}^3$					
$1 \times 5.40 \times 0.90 \times 0.30 = 1.35 \text{ m}^3$					
$1 \times 6.50 \times 0.90 \times 0.30 = 1.75 \text{ m}^3$					
					40.33 m^3
② Maintenance of embankment shoulder					
$1 \times 6.10 \times 1.20 = 7.32 \text{ m}^3$					
$2 \times 12.40 \times 1.25 = 30.00 \text{ m}^3$					
$3 \times 9.50 \times 0.90 = 25.65 \text{ m}^3$					
$2 \times 8.40 \times 1.10 = 17.60 \text{ m}^3$					
$4 \times 7.00 \times 1.15 = 32.20 \text{ m}^3$					
Continuation					112.77 m^3

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L.	B.	
(3) Restoration of Ramps				
	2	$6.50 \times 1.25 \times 0.25 =$		4.0611
	2	$10.00 \times 1.10 \times 0.25 =$		5.5011
	1	$6.50 \times 0.90 \times 0.30 =$		1.7811
	2	$7.10 \times 1.20 \times 0.25 =$		4.2611
	1	$5.00 \times 0.80 \times 0.30 =$		1.2011
	2	$6.40 \times 1.10 \times 0.30 =$		3.9611
	1	$9.25 \times 1.20 \times 0.30 =$		3.3311
	2	$8.00 \times 1.15 \times 0.25 =$		4.6011
	1	$10.00 \times 1.20 \times 0.25 =$		3.0011
				31.6611
(4) Maintenance of earthen shoulder				
	1	$8.25 \times 1.10 =$		8.2511
	1	$4.60 \times 0.90 =$		4.1411
	2	$7.50 \times 1.28 =$		9.2011
	1	$5.40 \times 0.80 =$		4.3211
	2	$10.40 \times 1.25 =$		25.0011
	1	$8.50 \times 1.20 =$		10.2011
	1	$7.10 \times 1.20 =$		8.5211
	1	$6.10 \times 1.20 =$		7.3211
	2	$5.20 \times 1.25 =$		13.0011
	1	$7.50 \times 1.25 =$		9.3711
	1	$6.90 \times 1.20 =$		7.6811
	1	$10.25 \times 1.20 =$		12.3011
	2	$7.00 \times 1.15 =$		16.1011
	2	$9.50 \times 1.10 =$		20.9011
				168.0411

Sch. XLV-Form No.134 14

Continuation

Report of the

Abstract of east

Sch. XLV-Form No. 134

15

Continuation